

12.21 hrs.

INDIAN TELEGRAPH (AMEND-  
MENT) BILL—contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up the Indian Telegraph (Amendment) Bill. Shri Dinesh Joarder may continue his speech.

SHRI DINESH JOARDER (Malda): Yesterday, when we were discussing this Bill I pointed out how the services of this department were deteriorating day by day, particularly in the eastern zone and more particularly in Calcutta. The lines go out of order for months. Trunk channels remain out of order for long periods. Calcutta is being cut off from Delhi, Bombay and other cities. Most of the district telephone exchanges in West Bengal have become overloaded and the old boards have no capacity to provide for new connections. On 17 October I sent a telegram to the hon. Minister: "Malda telephone exchange collapsed—lines remaining dead for days together—all long distance trunk routes cut off since long past—immediate intervention solicited." I have not received any reply yet from the Minister I do not know whether the telegram reached his hands. This is the condition of services that we are receiving from the Post and Telegraphs Department. Almost all charges, mails, telegrams, trunk calls, local calls, telephone rentals have all been increased; there has been a cent per cent increase but this is the kind of service in return.

What is their relationship with labour? Workers are not getting any overtime allowances and their workload has increased because no appointments are made to fill up vacant posts and the workload has to be distributed among the existing staff. This way there is a deadlock in many places. There has been a ban on new recruitment though the workload has increased

The existing vacancies have not been filled. The medical facilities for the employees have been stopped. The DA which was being paid to 3 lakh extra departmental employees has been stopped. As against this, the number of gazetted officers like General Managers, Deputy General Managers and other high ranking officers—has increased by five or ten times. In Calcutta now there are 5 General Managers as against one previously. There are 15 to 20 Deputy General Managers. These officers have been taking the service to the collapsing stage.

They are also unnecessarily antagonising the employees by derecognising the unions which have majority support. In 1971 there was direct political intervention from the ministry and the trade union which had the largest support of the employees was derecognised. In 1974, on the 10th May there was a sympathetic strike by postal employees in support of the railway strike. For that reason, several hundreds of employees have been victimised. Their increments or promotions have been stopped. Some have been transferred. Certain categories of trade unions were also derecognised but due to the intervention of the courts, those recognitions have been restored. Because of all these factors, the employees are not able to perform their duties satisfactorily and there is a strained relationship between the management and the workers. There is no coordination, mutual help and cooperation in the different sections of the P. & T. Department.

In these circumstances, this new levy of Rs. 10 per application is unnecessary. The statement of objects and reasons says:

- "(i) to make the waiting list more realistic to enable correct planning for expansion of the telephone system;
- (ii) to eliminate unnecessary bogus demands for telephone connections;

(iii) on receipt of the application for a telephone, the Department has to incur some expenditure in the registration of the application, maintaining waiting lists and for the correspondence it has to undertake with applicants regarding position of their cases. . .” etc.

This cost is not so much that it can justify the levy of Rs. 10 per application. So, I oppose this Bill. When the telephone connections remain out of order for days and months together, are you giving proportionate refund? In most parts of the country the local telephone lines remain out of order for days together. Even after reporting their non-functioning to the telephone exchange, those lines are not restored. Are you going to give proportional refund to those who do not get proper service from you? These aspects have to be considered.

Yesterday I requested the Minister to let us know how many applications have been received under this scheme of payment of Rs. 10 since 1969, the date of the introduction of this system and out of those applications how many new connections you have provided to them. You are taking money from them for applying for new connections but for years together you are not able to give a new connection. There is no guarantee that they will get connection in their own life time. When you cannot give a guarantee about the time limit, it is highly illegal for you to take money without any service. On these grounds, I oppose this Bill and I would request the Minister to withdraw the Bill, because it will create unnecessary hardship and place an extra burden on people who want to have telephone lines.

**SHRI VAYALAR RAVI** (Chirayinkil): Mr. Speaker, Sir, I support this Bill. I was listening to the hon. Member speaking from the other side. I agree with many of the points

he mentioned though I disagree with him on many other issues.

The department has been bifurcated into the postal and telecommunication system. The Government of India have taken a decision, I think correctly, that no further additional expenditure should be incurred on the creation of new posts. While this decision is strictly being followed in the case of posts of LDCs and UDCs, the top posts of General Managers are increased, only to provide more facilities and power to a group of people at the top of the hierarchy. You are depriving people at the lower level the normal opportunities of promotion while you create more posts at the top.

I am told that in one exchange the number of workers has been reduced and, at the same time, overtime has been stopped. They have reduced the hands from 22 to 18 or 16. While the Government may be saving Rs. 400 a week by this reduction in staff, they are losing about Rs. 7,000 by cancellation of calls because there is no proper attention given to the handling of calls. I can say from personal experience that in the case of Calicut, Trivandrum, Alleppey and Ernakulam the Government are losing thousands of rupees by cancellation of calls because there are not enough hands to look after the calls. So, I would request the Minister to examine whether this saving by reduction in staff is real saving.

Then I come to the delay in the delivery of telegrams I can quote dozens of cases where I have received the telegram after the letter, which was sent along with the telegram. I do not know at which end the mistake takes place. The position in Delhi is horrible. Telegrams from Kerala are received here very very late. I pointed out this to Shri Bahuguna when he was Minister but nothing has been done.

[Shri Vayalar Ravi]

When once I wanted to book a call to Quilon in Kerala I was told by the operator to contact the Overseas booking Centre at it is outside India! I do not blame him. India is a vast country and there are hundreds of places with peculiar names. So, you must post in such places people who can understand the different accents of English spoken in different States. Unfortunately, it is not done. Also, the operators should be well conversant in English because most of the people who book the calls do not know the regional language of the capital.

Then, most of the time when we want to book a call we hear the standard reply that the line is out of order. It looks as if they have tape-recorded these words and whenever a call is booked they play these words.

There are some rules framed by the British which are still in force. Take the conditions of service of the postmen, delivery men or the ED employees. If one ED employee has to take leave, he has to apply a week in advance, with three copies in English. Suppose the mother or wife of one ED employee has fallen sick, he can take leave only after a week. Otherwise, he should have anticipated this illness a week before. Also, he has to write the application in English even though he does not know that language.

The ED employees are at the mercy of the postal inspector. They have to attend to the household work of the postal inspector. Otherwise, they will be victimised.

Even though harijans are entitled to be appointed to ED post offices, in Kerala they are being denied such appointments by the postal inspectors. Even though I have brought it to the notice of the PMG, I am sorry to say that nothing has been done.

In the Madan Kishore Report you have accepted those recommendations which are favourable to the department and not the other recommenda-

tions. One of the conditions for appointment to the ED is that one should have some other source of income. In Kerala because of the acute unemployment problem even graduates are trying to get employment in the ED post offices for a salary of Rs. 50 or 60. Since they can get employment in ED post offices only when they have some other employment or source of income, they are forced to tell a lie that they have some other employment.

When you are increasing the salary or dearness allowance of the other employees, you are not doing that in the case of ED employees. Your argument is that out of the total 7 lakh employees, half of them are ED employees. All the same, you can give them at least Rs. 100. After all, you are getting a profit of Rs. 150 crores. I am sure the Minister will agree that the postal department should not be merely a profit-earning department; it should provide good service conditions to its employees. The Madan Kishore Report should be examined thoroughly and implemented wherever it is practicable. I am sure that every MP will be familiar with the problems of ED employees in his constituency. This is a problem which should be dealt with in a humane manner.

There is a peculiar rule in this department under which there cannot be direct dialling if the distance is above 8 km. This rule is creating a lot of difficulty for contact between Alwaye and Ernakulam.

I want to ask: Is it not for the facilities of the people? You have to change the rules. It is an industrial belt. A large number of industries are there. The man who has to book a trunk call has to wait for hours. I can have a drive in 15 minutes. But if I book a trunk call, I have to wait for hours. Whenever we raise the matter, the Minister says that the rule is, 8 km. distance. Why don't you change the rule? You look to the facilities of the people of the country.

If the rule has to be changed, you change the rule.

This is not the position only of Kerala. The same problem is in Bhopal also which is the constituency of the hon. Minister. It is the same problem in Allahabad, in Calcutta, in different parts of the country. You change the rule. It will give more money to the Department. Unfortunately, you are not doing it. I appeal to you to do something about it.

Then, sometimes your officials behave very badly. I had received a letter—I believe, the letter is *mala fide*—saying, I am indebted to the Department for telephone bills of six months during last year, that is, 1973. Fortunately, my father had kept the receipts. I wrote back to the Department saying, "I have already paid all the telephone bills. Why do you send me a letter like this?". No reply has come. The Telephone Department man said, "You have remitted the money. This is a mistake." But your Department has never cared to express regret. Your Department black-mails me even though I have remitted the money. I think, it is deliberately done. I know why he has done it. Supposing I had not got the receipts with me, in what position would I have been? Your Department does not care to even send a reply to my letter and express regret. This is a kind of thing taking place. I regret the way in which it is being done.

Lastly, being the President of one of the unions in the P & T, I regret the way in which some of the officers behave. I disagree with some of the unions because politically we cannot agree with them. I am also not in agreement with the political way of dealing with things. In Telicherry, in my hon. friend, Mr. Chandrappan's constituency, there is a lot of problem. I took up the matter with the D.E.T. But nothing has happened. One Congress member, a poor man, gets a telephone bill for Rs 1,000 or Rs. 1,200 for local calls. I think, it is purposely done with a political motive.

Every time, the hon. to go to the District Manager saying, "Please condone my bill." Your Department never explains why it happens like that. Your Department never takes any action. It is a misuse of powers.

In conclusion, I would again appeal to the hon. Minister to go through the Indian Telegraph Act, 1885. There are many anomalies and many ridiculous provisions which you have to amend and come before the House with a comprehensive Bill. It is a very very old Act. We are now an Independent country. It requires to be changed. About the working conditions of the employees, they should be given more facilities.

श्री रामाबतार शास्त्री (पटना) :

इम विधेयक के जगिये सरकार टेलीफोन के आवंदकों से जो दस रुपये जमा करती हैं उसे नियमित बनाना चाही है। जहां तक आवंदको मे दस रुपये लेने का मवाल है मै इमका तो विरोधी नहीं हूं इम वास्ते कि टेलीफोन वही लोग लेते है जिन के धम माघन होते है, जो बिजिनेसमेन होत है और इम तरह के लोग जब बैंकडों रुपया खर्च कर सकते है तो दस रुपये भी दे सकने है। मगर मै विरोधी इस बात का हू कि जब आप कहते है कि जिन लोगो ने दस रुपये दे दिए और आपने ले लिए वे टेलीफोन ले या नही उनको यह पैसा लोटाया नही जाएगा। जिन्हे आप टेलीफोन दे उनका पैसा तो आप जरूर रख ले लेकिन जिन को न दे उनका पैसा आपने पास रखने का आपका नैतिक अधिकार नही है। इस वास्ते इम में आप थोडा परिवर्तन करे। टेलीफोन जिन्हे मिल जाए उन से आप पैसे ले लें दस पये उनके आप रख लें और जिन्हे टेलीफोन न दिया जाए उनके रुपये आपको रिफंड कर देने चाहिये। पुराने बकाया के साथ भी यही

[श्री राजीवगार मास्त्री]

बात की जानी चाहिये जिस को आप नियमित करना चाहते हैं ।

जहा तक आपके डाकतार विभाग में दक्षता का सम्बन्ध है वह बहुत कम है । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिये कि इसकी जवाबदेही कर्मचारियों पर ही है । इधर उधर कर्मचारीगण भी जवाबदेह हो सकते हैं लेकिन मुख्य बात यह नहीं है । मुख्य बात यह है कि उनको आप जो साधन देते हैं, काम करने का जो सामान देते हैं वह आप ठीक नहीं देते हैं । मैं पटना की बात जानता हूँ । पटना बिहार की राजधानी है । वहाँ टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में जो यूनिट है उसका मैं प्रेजिडेंट भी हूँ । इस वास्ते बहा के हालात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ । वहाँ टी पी मशीन और स्टेबल चैनल में गड़बड़ी रहनी है । इतना ही नहीं वहाँ हिन्दी की टी पी ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है । बिहार के दूसरे इलाकों में आपने व्यवस्था कर दी है लेकिन वहाँ नहीं है । इसके अलावा वहाँ कर्मचारियों की सख्या भी कम है काम का बोझा उन पर ज्यादा है । कर्मचारियों की सख्या आप बढ़ाए ताकि बेकारी भी दूर हो । उन्हें सुविधाये बहुत ही कम हैं । मान ने यदि कोई तार बाबू को ड्यूटी खत्म हो गई या बीच में उनको मोका मिला कुछ विश्राम करने का तो वहाँ डारमिटर चौरह की पुरी व्यवस्था नहीं है, चारगाइरा ठीक नहीं रहती हैं, कोटरिंग की व्यवस्था नहीं है । इस तरह की जगहों पर भी बहुत सी जगहों में

होंगी जिस की जानकारी सुनो नहीं है । लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक जगह कठिनहि है तो हिन्दुस्तान की और जगहों में भी हम तरह की कठिनाइया होंगी । कर्मचारी काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें आप पुरी सहूलियतें मुहैया करे । हम यूनिट के लोग उनको कहते हैं कि आप दयालुता से काम करे । वे इसके लिए तयार हैं लेकिन उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये, उनकी जो कठिनाइया है उनको भी आपको दूर करना चाहिये, उनको पुरी सहूलियतें प्रापको उपलब्ध करनी चाहिये । पटना के बारे में मैंने मन्त्री महोदय को इसी महीने को प्यारह तारीख को एक पत्र लिखा था जिस की प्राप्ति की सूचना उन्होंने मुझे दे दी है लेकिन इतना मात्र हो काफी नहीं है । जो गड़बड़िया हैं उनको आपका दूर करना चाहिये ।

कर्मचारी अमानुष हैं । तृतीय बेलन आयोग ने उनके साथ न्याय नहीं किया है, पूरे के शीय कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया है । उनके साथ न्याय होना चाहिये । इधर चार चार महगाई भत्ते को उनकी इस्टानमेंट्स ड्यू हो गई है तकिन अभी तक उनको नहीं दो जा रहा है । इन महगाई के जमाने में वे कंथ जिन्दा रह सकते हैं, अपने बाल बच्चों का पवरिश कर सकते हैं, इसका अदाजा आप कर सकते हैं । पे कमिशन ने उनके साथ अन्याय किया है, गणचित इंग में उनके साथ व्यवहार नहीं किया है । इधर आप महगाई भत्ते को जो रकम उनको ड्यू हो गई है, चार इस्टानमेंट्स ड्यू हो गई है उनको देने में भी होला हवाला कर रहे हैं, कमी

कहते हैं कि डिपार्टमेंट कर देंगे, कभी कहते हैं कि घाघा देगे, कभी कहते हैं कुछ नहीं देगे। कल केन्द्रीय कर्मचारियों ने जिन की स्थिति काट बस हजार थी। इस सवाल को लेकर बिल नंबरों की कोठी के सामने प्रदर्शन किया था। पत्नी महोदय बादर आ. ए. और उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि तीन हफ्ते में हम इसका फैसला कर देंगे। मेरा निवेदन है कि महंगाई भन्ने की उनको जो चार इस्टाल-मेंट्स ड्यू हो गई हैं वे उनको मिलनी चाहिये।

टेलीफोन व्यवस्था में बड़ी ही गड़बड़ी है। यहा भी होगी। लेकिन पटना की बात जानता हूँ।

मेरे टेलीफोन नम्बर या एम पी के टेलीफोन नम्बर के लिए कहा जाता है कि बी आई पी टेलीफोन नम्बर है। सैकड़ों दफा में शिकायत कर चुका, पटना के बड़े बड़े अधिकारी इंजीनियर, एम डी ओ सभी आ कर मेरा फोन देख गए, आज तक वह ठीक नहीं हुआ। अपने से चार बेंच डेड हो जायगा और अपने से चालू हो जायगा। अजोब बात है, मसजद में नहीं आती। जब शिकायत करते हैं तो बेचारे मेकेनिक आते हैं, देखते हैं, चेक करके कहते हैं कि लाईन तो ठीक है, एक्स्चेंज में गड़बड़ी होगी। एक्स्चेंज वाले कहते हैं कि एक्स्चेंज तो ठीक है लाइन गड़बड़ होगी। मैंने एक दफा नाराज हो कर कहा कि शर्मा जी के पास ले जा कर मैं अपना टेलीफोन दे दूंगा। यह मेरे टेलीफोन की हालत है तो आम जनता की क्या हालत होगी ?

आप ने टेलीफोन ऐडवाइजरी कमेटी बना रखी है उस में ऐसे लोग हैं जो स्वीपिंग

मेम्बर है। वह भले रहे, जिन को आप की पेट्रोनेज मिलना है वही रहे, लेकिन उस की मॉटिंग तो करवानी चाहिए। उस की मॉटिंग करवाइए ताकि जनता को शिक्वयों पर वह कमेटी विचार कर सके, जो पेंडिंग दरखास्तों है उन पर विचार कर सके, जो टुक या टेलीफोन में कठिनाइया है उन पर विचार कर सके। लेकिन ये मारों बाते होनी नहीं। यह कमेटी केवल कागज पर है, बैठक इस की कभी होगी नहीं। आप नियम बना दोजिए कि इतने दिनों में टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठकें हुआ करेगी और यह भी नियम बना लीजिए कि जो दो तीन मीटिंग्स में लगातार नहीं आए उस को हटा दिया जायगा। यह व्यवस्था आज नहीं है, इधरिए न मीटिंग होती है और मॉटिंग होनी है तो लोग जाते भी कम हैं। सरकार अपनी ओर से पार्लियामेंट के मेम्बरों को ऐसम्बली के मेम्बरों की और जनता से प्रतिनिधियों को समय समय पर बुलाइए, उन से राय ले खाम तौर से बड़े बड़े शहरों में, वैसे होना तो सब जगह चाहिए लेकिन बड़े शहरों में इस तरह की व्यवस्था कम से कम कोजिए तो हम लोग भी कुछ बताना सकते हैं। अगला पटना में टेलीफोन इतना खराब रहता है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बताना सकता क्योंकि मैंने टेलीफोन ऐडवाइजरी कमेटी का मेम्बर नहीं हूँ। इतना ही इन का व्यवस्था होनी चाहिए। इस में आप के टेलीफोन डिपार्टमेंट की एक्स्प्रेसी भी बढेगी। हमारे जो ऐम्प्लाइड हैं आप के विभाग के अंदर उन का भी सहयोग आप लाजिए। कर्मचारी आप के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, इस बात में कि काम

## [श्री रामावतार शास्त्री]

एक यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पटना और दिल्ली में तो एस टी डी का सिस्टम है, दिल्ली में पटना डायरेक्टर डायलिंग कर सकते हैं लेकिन दिल्ली में कनकता नहीं कर सकते। कनकता भी एक बड़ा बड़ा शहर है। कनकता भी एक मेट्रोपोलिटन शहर है और दिल्ली भी एक मेट्रोपोलिटन शहर है। तो यह तो अन्याय है यहाँ की जनता और टेलीफोन उपभोक्ताओं के साथ और वहाँ के भी टेलीफोन उपभोक्ताओं के साथ कि वे डायरेक्ट डायलिंग नहीं कर सकते। इसी तरह में पटना में कनकते के लिए भी एस टी डी नाल का सिस्टम नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ हम तरह के बड़े बड़े शहर हैं उन को आप टप तरह में जोड़िए ताकि वे जल्दी आपस में बात कर सके डायल को घुमाए और बात हो जाय। अभी तो आप ने मुना कि अगर कोई मांगता है कि ट्रक लाइन दे दी जाय तो कहते हैं कि लाइन खराब है और इस में करप्शन भी बहुत है। आप के अफसरान पैसे लेते हैं। पैसे ले ले कर लाइन देने हैं मैंने उदाहरण दिया था बिहार शरीफ का जो नालदा जिन का हेडक्वार्टर है, पटना का उदाहरण दिया ताकि वे उदाहरण उन को फाइलों में जा कर पड़े रह जाते हैं। उन पर कार्यवाही नहीं की जाती है। जो कर्प्ट आफिसर्स हम तरह की बाने करते हैं अगर उन के बारे में आप के ध्यान में बात लाई जाय तो प्राम्प्ट ऐक्शन होना चाहिए और कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए। आप के विचार में एस टी डी का सिस्टम और सेड्यूड ट्राइबल के एम्पलाईज है ताकि प्रांतों में रहने प्रोग्राम करने बननी

है। कोई देखता नहीं है। उन की तरफ भी आप ध्यान दीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आप ने टेलीफोन नहीं दिया है उन से आप इस रूपया बसूलिए नहीं, उन्हें रिफंड कर दीजिए।

## श्री चन्व लाल चम्बर (बुर्से)

अध्यक्ष महोदय, चाहे तार के कर्मचारी हों चाहे डाक के कर्मचारी हों या टेलीफोन के कर्मचारी हो रात दिन काम करते हैं। इन की इयूटी कभी दिन में होती है, कभी रात में, कभी दो बजे रात काम पर जाते हैं कभी 8 बजे मर्दी गर्मी हर मौसम में इसी तरह ये काम पर आते जाते हैं लेकिन इन के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था इतनी कम है कि हमारे देश के अदर और दूसरे विभागों को जिनने करांट मिलते हैं उन की तुलना में उन विभाग के कर्मचारियों को बहुत ही कम क्वार्टर मिलते हैं। इसी तरह अभी मुझमें पूर्व बोलने वाले कुछ मदस्यों ने कहा है कि एकस्ट्रा-डिपार्टमेंटल एम्पलाईज जो है उन का वेतन बहुत कम है। वे दिन भर काम करने हैं और दूर दूर के गांवों में जाते हैं। उन का वेतन बहुत ही कम होता है। मैं आशा करूँगा कि जल्दी से जल्दी उन के वेतन में कुछ वृद्धि की जायगी।

हमारा जो स्टेट्स रीआर्गनाइजेशन कमीशन बना था उस में खास तौर पर यह सिफारिश की गई थी कि बंध्य प्रदेश इतना बड़ा एक प्रदेश बन गया है, बहुत दूर दूर तक इस का क्षेत्र फैला हुआ है, पहाड़ और जंगलों से भरा पड़ा है, तो इस की संचार व्यवस्था की और केंद्रीय सरकार विशेष ध्यान दे।

इसके बावजूद 27 साल की राजाजी के बाद श्री मध्य प्रदेश ऐसा प्रश्न है कि जहां न तो अधिक डाकखाने खुले हैं बावजूद में ही टेलीफोन की कोई खास व्यवस्था है। मैं जानना चाहूंगा कि देश भर में एक हजार व्यक्ति के पीछे कितने पॉस्ट-ऑफिस हैं या कितने टेलीग्राफ ऑफिस या टेलीफोन हैं? इसमें मात्रा ही जायगा कि मध्य प्रदेश में कितनी कम टेलीफोन की व्यवस्था है।

मिनार्ड में जो कारखाना है वह देश का सबसे बड़ा कारखाना है इस माने में कि 42 हजार स्थायी कर्मचारी एक मैनजमेंट के अंदर एक जगह काम करते हैं। इतना बड़ा कारखाना दूसरी किसी जगह नहीं है। लेकिन उस क्षेत्र में अभी तक डायरेक्ट डायलिंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में किसी जगह भी डायरेक्ट डायलिंग की व्यवस्था नहीं है। मिनार्ड का इतना बड़ा कारखाना है जहाँ स्क्रैप इत्यादि के निर्यात में बम्बई कलकत्ता आदि सभी जगहों से लोग आते जाते हैं लेकिन टेलीफोन की व्यवस्था वहाँ बिल्कुल नहीं है। मिनार्ड में लगे हुए तीन चार स्थान हैं दुर्ग, गमीपार, इत्यादि लेकिन तीनों के लिए अलग अलग टेलीफोन हैं और कुल पांच किनोमीटर के अंदर ये तीन स्थान हैं लेकिन उन के लिए ट्रेक डायल करना पड़ता है। इसी तरह से मेम्बर पार्लियामेंट जब कभी आने क्षेत्र को टेलीफोन करते हैं तो कई-कई दिन तक लाइन नहीं मिलती मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ कि जब भी मैं टेलीफोन आने क्षेत्र में करता हूँ आठ आठ दिन तक लाइन नहीं मिलती। परसों रात को 6 बजे से 12 बजे तक और सबेरे

फिर टेलीफोन करने की कोशिश की लेकिन लाइन नहीं मिली, ट्रेक डायलिंग की व्यवस्था इतनी खराब है।

**MR. SPEAKER:** I am sorry to interrupt you. It is a limited Bill. It is not a general debate. In the case of Mr Shastri also I was listening but he came to relevancy after ten minutes.

श्री चन्द्र बाल चन्द्राकर यह टेलीफोन के मिलमिले में है, मैं टेलीफोन के बारे में ही कह रहा हूँ। (शब्धान) मेरे पूर्व बक्तारों में मैंने ही बोले हैं।

प्रश्न-२-४३१४७ : वही तो मैं देख रहा हूँ। मैं तो यहाँ बैठा रहूँगा लेकिन कान को कोई पड़ेगा तो वह यही कहेगा कि स्पीकर भी मैं ही बैठा रहा और इस तरह से स्पीच होती रही। तो मैं और कुछ नहीं, मैं तो अपनी जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ जिसमें कान को कोई पड़े तो मैंने कुछ न कहे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता दूँ। यह आप सब लोगों को क्या हो रहा है? आप लोगों ने एक टेलीफोन या टेलीग्राम का नाम मुन लिया और जो कुछ भी कहना था वर उस पर कह डाला। शास्त्री जो बोल रहे थे तो वह बीच-बीच में रिलीवेंट कही कही हो जाते थे। मैंने सोचा आप जनलिस्ट हैं, वह नहीं है, आप इस को ज्यादा पढ़ें होंगे।

**You better continue when we resume the discussion again.**

*The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.*